



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164]  
No. 164]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1984/वैशाख 29, 1906  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1984/VAISAKHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विस्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

सं० 157/84 सीमाशुल्क

सा० का० नि० 384(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटकों और उपसमयनों को विशेष टी० वी० विस्तार योजना के अधीन दूरवर्षों को प्रदाय के लिए—

- (i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जितना

मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत की दर पर संगणित  
रकम से अधिक है, और

- (ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त सीमाशुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

- (क) आयातकर्ता, निकासी के समय, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप सचिव से अनिम्न पक्ति के किसी अधिकारी का और भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पक्ति के किसी अधिकारी का इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त कच्ची सामग्री, संघटक और उप समयने विशेष टी० वी० विस्तार योजना के अधीन उक्त माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है,
- (ख) आयातकर्ता, उक्त कच्ची सामग्री, संघटकों और उपसमयनों की निकासी की तारीख से बारह

मास की कालावधि के अन्दर या बढ़ाई गई ऐसी कालावधि के अन्दर जो सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर अनुज्ञात करे, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप सचिव का अनिम्न पत्र के किसी अधिकारी से और भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पत्र के किसी अधिकारी का इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि आयातित कच्ची सामग्री, संघटकों और उप समंजनों का उपयोग, विशेष टी० वी० विस्तार योजना के अधीन उक्त माल के विनिर्माण के लिए किया गया है और ऐसा माल दूरदर्शन द्वारा उपयोग के लिए सम्पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया है;

- (ग) आयातकर्ता उक्त आयातित कच्ची सामग्री, संघटकों और उप समंजनों की ऐसी मात्रा की बाबत जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं हुआ है कि उनका उपयोग विशेष टी० वी० विस्तार योजना के अधीन उक्त माल के विनिर्माण के लिए किया गया है, ऐसी कच्ची सामग्री, संघटकों और उपसंमंजनों पर, मांग की जाने पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के जो इसमें अन्तर्बिष्ट छूट के कारण नहीं दिया जा रहा है, और उसके जो आयात के समय पहले ही दे दिया गया है, बराबर रकम का संदाय करने का बंधनबंध करते हुए ऐसे प्ररूप में और उतनी राशि का जितनी सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निकासी के समय, एक बंधपत्र निष्पादित करेगा।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) “दूरदर्शन” से किसी भी नाम से ज्ञात ऐसे कार्यालय केन्द्र और अन्य स्थापन जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक, दूरदर्शन के भाग या उसके अधीन है, अभिप्रेत है;
- (ii) “विशेष टी० वी० विस्तार योजना” से भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेष टी० वी० विस्तार योजना अभिप्रेत है।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर (10/ कि० वा० 1 कि० वा०) और उपसाधन
2.	निम्नशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर (100वां) और उपसाधन।
3.	टी० वी० रिसिव ओनली (टी वी आर ओ) टर्मिनल और उपसाधन।

4. टेलिसाइन उपस्कर और उपस्कर।
5. टी० वी० कार्यक्रम निर्माण के लिए स्टूडियो कैमरा, और उपसाधन।
6. 1"—बी फामेंट वी० टी० आर और उपसाधन।
7. इलेक्ट्रानिक न्यूज गैदरिंग (ई० एन० जी०)-3 ट्यूब कैमरा और उपसाधन।
8. 3/4" यू-मेटिक टी० वी० आर उपसाधन
9. मंपादन नियंत्रण
10. डिजिटल टाइप बेस करक्टर (डी टी बी सी)
11. 3/4"-पोर्टेबल यू-मेटिक वी० टी० आर० और उपसाधन
12. अन्य टी० वी० उपस्कर अर्थात् स्टेबलाइजिंग इम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर, करेक्टर जनरेटर।
13. वृत्तिक कलर मोनिटर।
14. 3/4" और 1" वीडियो टेप
15. आवश्यक परीक्षण और मापक उपकरण अर्थात् टेस्ट पेडल जनरेटर और बेसफार्म मोनिटर

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 370/80/83-सी० शु०-1]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 1984

NO. 157/84-CUSTOMS

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw materials, components and sub-assemblies required for the manufacture of the goods specified in the Table annexed hereto for supply to the Doordarshan under the Special TV Expansion Plan, from —

- (i) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty-five per cent ad valorem; and
- (ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said

Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely : —

- (a) the importer, at the time of clearance, produces a certificate from an officer not lower in rank than a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting and an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India to the effect that the said raw materials, components and sub-assemblies are required for the manufacture of the said goods under the Special TV Expansion Plan;
- (b) the importer produces a certificate from an officer not lower in rank than a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting and an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India, within a period of twelve months from the date of clearance of the said raw materials, components and sub-assemblies, or within such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow, to the effect that the imported raw materials, components and sub-assemblies have been used for the manufacture of the said goods under the Special TV Expansion Plan and that such goods have been duly received for use by the Doordarshan;
- (c) the importer at the time of clearance executes a bond in such form and for such as may be specified by the Assistant Collector of Customs, undertaking to pay, on demand, in respect of such quantity of the said imported raw materials, components and sub-assemblies as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the manufacture of the said goods under the Special TV Expansion Plan, an amount equal to the duty leviable on such raw materials, components and sub-assemblies but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

Explanation:— For the purposes of this notification, —

- (i) "Doordarshan" means the offices, kendras and other establishments, by whatever name called, which form part of or are under the Directorate General, Doordarshan, of the Government of India in

the Ministry of Information and Broadcasting;

- (ii) "Special TV Expansion Plan" means the Special TV Expansion Plan of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting.

TABLE

Sl. No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	High power TV transmitters 10KW/1 KW) and accessories.
2.	Low power TV transmitters (100 W) and accessories.
3.	TV Receive only (TVRO) Terminals and accessories.
4.	Telecine equipment and accessories.
5.	Studio cameras for TV programme production and accessories.
6.	1"-B Format VT Rand accessories.
7.	Electronic News Gathering (ENG) -3 tube camera and accessories.
8.	3/4" U-matic VTR and accessories.
9.	Editing control.
10.	Digital Time Base Corrector (DTBC).
11.	3/4"-Portable U-matic VTR and accessories.
12.	Other TV studio equipments such as Stabilizing Amplifier, Distribution amplifiers, Character Generator.
13.	Professional colour monitors.
14.	3/4" and 1" video tapes.
15.	Essential test and measuring instruments viz. Test Pattern Generator and Waveform monitor.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1987.

(F. No. 370/80/83-Cus-I)

अधिसूचना

सं० 158/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 385(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 36 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना

सं० 131/84-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 218 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“219 सं० 157/84-सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 1984”।

[फा० सं० 370/80/83-सी०-1]

एम० एन० बिश्वास, अवर सचिव

**NOTIFICATION**  
**NO. 158/84-CUSTOMS**

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the

Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 36 of the Finance Act, 1984 (12 of 1984), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 131/84-Customs, dated the 11th May, 1984, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 238 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“219. No. 157/84-Customs, dated the 19th May, 1984.”

[F.No. 370/80/83-Cus.I]

M. N. BISWAS, Under Secy.